



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16, 1977/आषाढ़ 25, 1899  
No. 243] N.W DELHI, SATURDAY, JULY 16, 1977/ASADHA 25, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 16th July 1977

G. S. R. 527(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts copperwaste and scrap, falling under Heading No. 74.01/02 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 80 per cent *ad valorem*.

[No. 156/F. No. S 4/77-TRU(Cus)]

विज्ञापन संश्लेष

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएँ

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1977

सां०कां०वि० 527(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो

(1519)

जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सख्या 74.01 02 के अन्तर्गत सम्मिलित तांबे के अपशिष्ट या रद्दी तांबे को, जब उसका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देनी है जितना मूल्य के 80 प्रतिशत से अधिक है।

[सं० 156 फा० सं० एस० 4 77-टीआरयू(सीशु)]

**G.S.R. 528(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 123-Customs, dated the 1st July, 1977, namely :—

In the Schedule to the said notification,—

after serial No. 158 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely —

“159. No. 156-Customs, dated the 16th July, 1977.”

[No. 157/F. No S 4/77-TRU(Cus)]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy

**सां०का०निं० 528(अ).**—वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 123-सीमा-शुल्क तारीख 1 जुलाई, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

क्रम सं० 158 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“159. सं० 156-सीमा-शुल्क, तारीख 16 जुलाई, 1977।”

[सं० 157 फा० सं० एस० 4 77-टीआरयू(सीशु)]

जोसेफ डोमिनिक, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977